



1-The Department of Posts, Delhi Circle has opened the third all-Women Post Office in the national capital.

डाक विभाग, दिल्ली सर्कल ने राष्ट्रीय राजधानी में तीसरा महिला डाक घर खोला है।

2-State Bank of India said Chalasani Venkat Nageswar has been given additional charge of deputy managing director and chief financial officer (CFO) of the bank.

भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि सी वेंकट नागेश्वर को बैंक के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

3-Leg-spinner Poonam Yadav was the lone Indian to make the ICC Women's T20 playing XI of the World Cup, which featured teenage sensation Shafali Verma as the 12th player.

लेग स्पिनर पूनम यादव आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय है जबकि उदीयमान सितारा शोफाली वर्मा को 12वां खिलाड़ी बनाया गया है।

4-Former Law Minister and senior Congress leader Hans Raj Bhardwaj died. He was 83.

पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हंसराज भारद्वाज का निधन हो गया। वह 83 साल के थे।

5-Market regulator Sebi has revised mutual fund regulations to permit non-bank Sebi-registered custodians to manage gold or gold-related instruments.

बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमन में संशोधन किया है। इसमें सेबी के पास पंजीकृत गैर- बैंक अभिरक्षकों (कस्टोडियन) को सोना और सोने से जुड़े उत्पादों के प्रबंधन की अनुमति दी गयी है।

6-Afghanistan President Ashraf Ghani was sworn in for a second term as his rival Abdullah Abdullah held a parallel inauguration that could plunge the country deeper into crisis ahead of peace talks with the Taliban.

अफगानिस्तान में तालिबान के साथ शांति वार्ता को लेकर उत्पन्न संकट के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने काबुल में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जबकि चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी डॉक्टर अब्दुल्ला-अब्दुल्ला ने एक अलग समारोह में शपथ ली।

7-After serving at strategic XV Corps of Army last year, Lt Gen KJS Dhillon will take over the post of Director General Defence Intelligence Agency and Deputy Chief of Integrated Defence Staff (Intelligence).

लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआईए) और एकीकृत रक्षा स्टाफ (संचालन) के उप प्रमुख (डीसीआईडीएस) के महानिदेशक का पदभार संभालेंगे। वह पिछले साल सेना की सामरिक 15वीं कोर में सेवाएं दे चुके हैं।

8-Merchant fintech start-up BharatPe announced the appointment of Vijay Aggarwal as its Chief Technical Officer.

मर्चेण्ट फिनटेक स्टार्ट-अप भारतपे ने विजय अग्रवाल को अपना मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की।

